



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28—अप्रैल 3, 2009 (चैत्र 7, 1931)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28—APRIL 3, 2009 (CHAITRA 7, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. 2/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2009 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	जिस पद से पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. के. पात्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
2.	आर. फणि भूषण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
3.	वैशाली शिम्पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
4.	राकेश शुक्ला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
5.	अनिता नायडू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 28-01-2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
	श्री/श्रीमती/कु.
1.	एन. अशोकानंद
2.	मनु सागर के. वी.

1	2
	श्री/श्रीमती/कु.
3.	एस. अमलेश
4.	बेलमुरुगन के.
5.	एस. प्लाटो
6.	टी. जी. माधवन
7.	एस. कृष्णा
8.	ए. एस. रामसुब्रमण्यन
9.	हरजीत सिंह
10.	विजयकुमार आर.
11.	सोमनाथ डे.
12.	पराग चर्मन
13.	देवदत्त मिश्रा
14.	रिजित के. धी
15.	गौरव शर्मा
16.	योगेश जन्ने
17.	सौरभ करमारकर
18.	रश्मिता मोहंती
19.	सिरिशा कुचिभोतला
20.	सिंह सौरभ कनार महेंद्र
21.	अलोक सिंह
22.	अमित कुमार यादव
23.	किरण आर.
24.	गौरव बन्सल
25.	अमरदीप कुमार
26.	चिन्मोय मोडल
27.	उमानंद शर्मा

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2009-1-राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थापनापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वार्ह से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की गई तारीख
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	के. ललिता	क्रय व भंडार अधिकारी	30-07-2008
2.	पी. एस. लिलिल	क्रय व भंडार अधिकारी	31-07-2008

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
3.	एल. प्रेमलता	क्रय व भंडार अधिकारी	30-07-2008
4.	फिलिपोस एम. सी.	क्रय व भंडार अधिकारी	30-07-2008
5.	लालुकुमारी	क्रय व भंडार अधिकारी	31-07-2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2009-1-राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनों के पूर्वार्ह से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	जिनो पी. जाय	29-01-2008
2.	अरुण प्रकाश एन. पी. एस.	16-06-2008
3.	प्रतिश्री जी.	16-06-2008
4.	सनंद टी. वी.	16-06-2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2009-1-राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर दिनों 01-01-2008 के पूर्वार्ह से स्थापनापन्न रूप में आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	ससिधरन नायर व	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.
2.	जे. सुरेश जीवन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
3.	अनंतराम रेड्डी एच. एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
4.	मणिमारन ए.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
5.	शंभु नाथ सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.जी.
6.	शाजी के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
7.	कृष्णानंदन पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
8.	नितिन बी. कटगढ़	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
9.	के. मोणिलेकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
10.	रवीन्द्रन पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
11.	वेणुप्रसाद पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
12.	कामाच के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
13.	रमेश सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
14.	साम जकारिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
15.	अलेक्स साम्युयल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
16.	कार्तिकेयन एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
17.	रुतुराशि सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
18.	बंटी राम राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
19.	सुमा एम. एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
20.	एस. राजेश्वरि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
21.	मोहनदासन के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
22.	बैजु आइजैक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
23.	एस. मुतुलेक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
24.	एस. डैसी एगिनस बामि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
25.	एस. वैकद कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
26.	एन. विजयमोहनन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
27.	सी. सुधा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
28.	एस. नंतकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
29.	जी. नागेस्वरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
30.	जोगेश डेविड	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
31.	उमापति जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.
32.	के.जी. पवनन	पीएसओ
33.	बी. आर. मंजुनाथ राव	पीएसओ

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2009-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एस. के. गोविंदराजन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
2.	बी. चेल्लालुरय	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
3.	एम. बी. नरसिंह प्रसाद	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
4.	बी. एन. मिसाले	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
5.	सतीश चंद्र कुमार	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
6.	टी. पेरुमाल	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
7.	जेराल्ड मोसस आलिवर	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.
8.	वी. कुमारस्वामी	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
9.	वी. गणपति सुब्रमणियन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
10.	के. एस. वेंकटेश्वरन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
11.	आर. संतानम	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
12.	पी. कार्तिक	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
13.	रेजि जोसेफ	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
14.	श्रीनिवासन आर.	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
15.	गणेश पिल्लै एम.	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.
16.	आर. सुडालाल कन्नु	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
17.	वी. सेल्व कुमार	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
18.	एस. रामचंद्रन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
19.	वी. कालिमुथन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
20.	शैक शंशुल हक	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
21.	गौरी शंकर वुरिति	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
22.	राजु के. जे.	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
23.	जिजिमोन एन. के.	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
24.	प्रदीप कुमार जी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
25.	के. बी. कृष्णमूर्ति	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.ई.
26.	एम. सिंगारवेलु	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
27.	पी. पद्मनाभन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
28.	डी. थॉमस	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
29.	पी. राजेंद्रन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
30.	जे. ब्रैट नेल्सन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
31.	टी. अनिता	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
32.	एस. मुरुगन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
33.	एम. सुब्रमणियन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
34.	एस. रवीन्द्रन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
35.	पी. विन्सेंट	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
36.	ए. क्रास सपना	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.
37.	एस. कमल	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी.

1	2	
	श्री/श्रीमती/कु.	
38.	निनिश एम.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
39.	बाबु कुट्टन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
40.	अनिल जाज	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
41.	नित्यानंद साहू	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
42.	सुजित को. राजन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
43.	जाबो वी. थॉमस	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
44.	भगवति लक्ष्मी एल.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
45.	कुमरेसन डी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
46.	अनिल कुमार एम.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
47.	गोपकुमार नायर को. एम.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
48.	जगदीश रेडिहाजु	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
49.	विस्वरूप सुरकार	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
50.	अजित बी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
51.	राजकुमार नायर आर.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
52.	आशिष कुमार कार्तिकेय	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
53.	गोपालकृष्णन को. एम.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
54.	जचरिया अमलराज आर. बी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
55.	अशोक कुलकर्णी	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
56.	विद्या कर्तिकेयन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
57.	बी. बालमुगन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
58.	एम. नरेंद्र	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
59.	के. आर. राजेश	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
60.	आर. सुमति	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
61.	एम. एन. राम	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
62.	श्रीकुमार एम. बी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
63.	शानिल माणिक को. पी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
64.	नानु टी.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.
65.	मोहनराम जे.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	अनदि कांता रे.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	31-08-2008
2.	सिवमुद्रमणियन एन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	30-11-2008
3.	सुब्रमण्य अय्यर एच.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	31-08-2008
4.	उमाराव सिंह एच.	प्रभार, आभयन-एस.डी.	30-09-2008
5.	हर्षद राउथर पी. एस.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	30-09-2008
6.	रवींद्रन पिल्लै पी. सी.	प्रभार, आभयन-एस.डी.	30-11-2008
7.	ससिधरन नायर आर.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	31-01-2009
8.	अब्रहाम एन. जे.	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	31-10-2008

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2009-1- अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में निम्नलिखित वैज्ञानिक-इंजीनियरों ने त्यागपत्र स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आकाश राजन	वैज्ञानिक, इंजीनियर-एस.डी.	04-11-2008
2.	आर. तमिल सेल्वन	वैज्ञानिक, इंजीनियर-एस.डी.	08-12-2008
3.	उमानंद शर्मा	वैज्ञानिक, इंजीनियर-एस.डी.	16-01-2009

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2009-1- अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने स्वेच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	अनंत सारंग	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	05-09-2008
2.	कोलोकर निजल सेन	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	11-07-2008
3.	डी. जॉनी	वैज्ञानिक, आभयन-एस.डी.	01-01-2009

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2009-1- अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. एफ.6(2081)/2009-प्रशासन-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 जनवरी, 2009 के आदेश सं. 14/8/2008-ई.ओ. (एस.एम.1) के तहत सूचित मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, श्री आर. भट्टाचार्या, आई.ए.एस. (ए.पी. : 78) ने दिनांक 2 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार का कार्यभार संभाल लिया है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2009

सं. ए-44011/2/2004-प्रशासन-1--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 16-02-2009 के पत्रांक 11024/5/2008-आई.एस.एस. का अनुपालन करते हुए तथा योजना आयोग के दिनांक 12-01-2009 के समसंख्यक अधिसूचना को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए, डॉ. देवेन्द्र वर्मा, आई.एस.एस. को दिनांक 01-06-2007 अर्थात् उनके द्वारा विदेश अनुबंध के समाप्ति के बाद कैंडिड में वापिस आने की तिथि से वेतन बैंड-4 अर्थात् रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- ग्रेड पे (रु. 18,400-500-22,400/- के संशोधन पूर्व वेतनमान) में आई.एस.एस. के एस.ए.जी. स्तर में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

2. यह तदर्थ पदोन्नति डब्ल्यू.पी.(सी) 1755/08 और अन्य संबंधित सी.एम.पी. तथा अन्य अनेक न्यायिक याचिकाओं में अंतिम निर्णय तथा सरकार के न्यायिक अधिकारों के अधीन होगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पदोन्नति सामयिक व्यवस्था के तौर पर पूर्णतया तात्कालिक रूप से दिया जाता है तथा इसे किसी भी समय बिना कोई कारण बताए वापिस लिया/रद्द किया जा सकता है। उक्त पदोन्नति से डॉ. वर्मा को नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा तथा तदर्थ सेवा के कार्यकाल को इस ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा पदोन्नति के लिए अर्हता के तौर पर नहीं गिना जाएगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2009

शुद्धि-पत्र

सं. एफ.6(2081)/2009-प्रशासन-1--श्री आर. भट्टाचार्या, आई.ए.एस. (ए.पी. : 78) के योजना आयोग में दिनांक 2 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ सलाहकार का कार्यभार संभालने के बारे में योजना आयोग का समसंख्यक अधिसूचना का संदर्भ लें। उक्त अधिसूचना के जारी करने की तिथि को दिनांक 4 फरवरी, 2008 के स्थान पर 4 फरवरी 2009 पढ़ा जाए।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 2 मार्च 2009

सं. एफ.6(1561)/93-प्रशासन-1 (खण्ड-2)--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/01/2009-आई.ई.एस. के तहत जारी दिनांक 23 फरवरी,

2009 के आदेश सं. पी-1/2009 का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. के एस. ए.जी अधिकारी तथा योजना आयोग में सलाहकार, श्री के. एल. दत्ता को ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभालने हेतु दिनांक 2 मार्च, 2009 से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. ए. 12026/5/2000-प्रशा.-I(वि.वि.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से, उनके दिनांक 05 मार्च, 2009 के कार्यालय आदेश सं. ए.32013/1/2009-प्रशा. 1 के द्वारा स्थानांतरण तथा दिनांक 05 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कुलदीप कुमार, उप सचिव को उसी तारीख से तथा अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की नामावली में शामिल किया जाता है।

एल. आर. राव, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2009

सं. ए-12026/6/2006-प्रशा.-I(वि.का.)--विधि कार्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी, विभाग के श्री जयंत कुमार घोष, सहायक (विधि) को तदर्थ आधार पर दिनांक 19 जनवरी, 2009 से अगले आदेशों तक छह माह की अवधि के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-2 में रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में और 4,800/- रुपये ग्रेड वेतन में अधीक्षक (विधि) के पद (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख, राजपत्रित पद) पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से वे अधीक्षक (विधि) के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई ऐसी सेवा की गणना ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु की जाएगी।

बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. के. 13023/5/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री संजय यादव, और (ii) श्री केंदर सिंह चौहान को, उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 02-03-2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. टुङ्कले, उप सचिव

दिनांक 4 मार्च 2009

सं. के. 13029/2/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाविद श्री अशोक हुसैन शङ्कीया को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से निम्नलिखित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. डूबले, उप सचिव

सं. को. 13026/7/2008-यू.एस.-II- राष्ट्रपति, भारत के सावधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाविद श्री जेकरव वेन्जामिन कोश को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. डूबले, उप सचिव

सं. को. 13012/8/2008-यू.एस.-II- राष्ट्रपति, भारत के सावधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाविद श्री चन्द्रमोल कुमार प्रसाद को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. डूबले, उप सचिव

सं. को. 13022/4/2008-यू.एस.-II- राष्ट्रपति, भारत के सावधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाविद श्री सामंथर स्वयंका बन्नुमट को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बंगलूर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. डूबले, उप सचिव

सं. को. 13028/4/2008-यू.एस.-II- राष्ट्रपति, भारत के सावधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाविद श्री साधव वना को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बंगलूर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. डूबले, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 फरवरी 2009

सं. 14016/1/2008 यू.पी.एस.-II- संयुक्त सचिव, एक राज्य क्षेत्र, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिसा, एक राज्य क्षेत्र, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दमन एवं दीव क्षेत्र (सुरक्षा सेवा) नियमावली, 2003 के नियम 10 के उप-नियम 1 के अन्तर्गत निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दमन और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप क्षेत्र

की पुलिस सेवा (दानिप्स) में दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए 9,300--34,800/- (ग्रेड पे 3,800/-) रूपए के वेतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में नीचे लिखित दिनांक से नियुक्त करते हैं :-

क्र. अधिकारी सं. का नाम	प्रेष संख्या	जन्म की तारीख	तारीख से
सर्वश्री			
1. जलधारी लाल मीणा	डी 1 645	24-07-1957	03-07-2008
2. रघुपाल सिंह	डी 1 648	04-04-1951	20-10-2008
3. बलवान सिंह	डी 1 674	07-05-1952	13-01-2009
4. गणवीर सिंह	डी 1 678	07-08-1950	तत्काल प्रभाव से

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित चार निरीक्षकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4210/2007-जगदीश चंद वनाम भारत संघ एवं अन्य और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11356-62/2006-जे. को. जैन और अन्य वनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश के प्रवृत्त होने से पहले दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे कि उक्त निरीक्षकों के विरुद्ध सतर्कता की दृष्टि से कोई मामला नहीं है।

जे. को. सिंह, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली-110001 दिनांक 9 मार्च 2009

सं. 14031/1/2007-यू.पी.एस.-अरुणाचल प्रदेश-मोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1987 वैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्री एल. सेलु, अधिवर्षिता की अनुप्राप्त होने पर 28 फरवरी, 2009 की अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. 1-11014/6/2008 आई.पी.एस.-IV- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार, एन.टी.आर. श्री नितीन तिवारी, आई. पी. एस. (ए. पी. : 2007) का विवाह सुश्री दीपिका गर्ग, आई. पी. एस. (यू. पी. : 2007) के साथ हो जाने के आधार पर, उनका आन्ध्र प्रदेश के आई. पी. एस. संवर्ग से उत्तर प्रदेश के आई. पी. एस. संवर्ग में स्थानान्तरण करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई. पी. एस.-IV)

कार्पिक, लोक निकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्पिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 24012/3/2009-अ.भा.स.-II- राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा एजीएमयू संवर्ग की एक सदस्य डॉ. आशा जेम्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा

(एजीएमयू : 93) के भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र को अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकार करती हैं।

हरजोत कौर, निदेशक (सेवा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. ए.32013/5/2008-प्रशा.1(रापत्रित)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2008-सी. एस.(डी.) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए वर्ष 2006 की चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को 01-07-2006 से और अगले आदेशों तक, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री चानन राम, उप सचिव
2.	सुश्री अनुराधा एस. चगती, उप सचिव
3.	श्री वी. के. वेलुकुट्टी, उप सचिव

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2009

सं. 14012/12/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्रीमती श्रीप्रिया रंगाराजन को दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 14012/15/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती पलका साहनी	2004	06-09-2006
2.	श्री आर. लक्ष्मणन	2004	06-09-2006
3.	श्री बिरेन्द्र प्रसाद यादव	2004	06-09-2006
4.	श्री अभय कुमार सिंह	2004	06-09-2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 16 मार्च 2009

सं. 14013/01/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री जोन्स इंगित कथाई	1990	30-12-1997
2.	श्री रितेन्द्रा नाथ शर्मा	1990	30-12-1997
3.	श्री लक्ष्मी नाथ तमुली	1990	30-12-1997
4.	श्री जॉय चन्द्र गोस्वामी	1992	28-06-2002
5.	श्री हेमांग किशोर शर्मा	1992	10-12-2005
6.	श्री जे. लिंगडोह	1995	05-03-2002
7.	श्री एस. एफ. खोंगवीर	1995	05-03-2002
8.	श्रीमती एम. एच. के. मारक	1995	05-03-2002
9.	श्री एच. एल. पिरतुह	1995	05-06-2003
10.	श्री बी. धर	1996	21-01-2004
11.	श्रीमती एल. खारकोनगोर	1996	22-01-2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. 14015/07/2008-अ.भा.से.-(I)क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2002 से 2008 तक की चयन सूचियों के लिए हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 18 दिसम्बर, 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 3 मार्च, 2009 को अनुमोदित की गई हरियाणा राज्य की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची-2002

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
सर्व/श्री		
1.	युधवीर सिंह ख्यालिया	25-10-1954
2.	लाजवीर सिंह	04-06-1950
3.	रमेश कृष्ण	20-03-1956
4.	जय पाल सिंह दहिया	15-03-1948
5.	सुरजीत सिंह	04-06-1953

चयन सूची-2004

अधिकारी का नाम	क्रम सं.
श्री महाराज कृष्ण महाजन	1

चयन सूची-2007

क्र.सं. अधिकारी का नाम	क्रम सं.
सर्व/श्री	
1. प्रदीप कसनी	15-01-1988
2. प्रवीण कुमार	29-08-1960

चयन सूची-2008

क्र.सं. अधिकारी का नाम	क्रम सं.
सर्व/श्री	
1. अभय सिंह यादव	15-01-1988
2. मोहन लाल कौशिक	29-08-1960
3. रोहतास सिंह खच	15-01-1988
4. रमेश चंद वर्मा	29-08-1960

2. प्रवर सूचियों में उपयुक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना, निम्नलिखित मामलों के अंतिम परिणाम के अध्ययन होगा

1. भारत संघ बनाम जे.डी. नहरवाल और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 6474/2003.
2. युधवीर सिंह ख्यालिया बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 13381/2006.
3. रमेश चंद वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 10367/1994.
4. प्रवीण कुमार बनाम लाजवीर सिंह और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 4092/1985.
5. हरियाणा राज्य बनाम लाजवीर सिंह द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 10367/1994.
6. वजीर सिंह गौरत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 3549/2007.
7. श्री वृज भूषण कौशिक द्वारा दायर ओए सं. 508/एचआर/2008.
8. श्री अशोक कुमार विशनोई बनाम भारत सरकार द्वारा दायर ओए सं. 58/एचआर/2009.

एस.एस. मुखर्जी, जज यांचव

सं. 14015/07/2008 अ.प्र.सं. 111/एचआर/2008 (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1954 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा : परिगीक्षा : नियमावली 1954 के अनुसार भारत सरकार द्वारा पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भारत) नियमावली 1954 के अनुसार

8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2002, 2004, 2007 और 2008 की चयन सूचियों के लिए हरियाणा राज्य सरकार से परामर्श करके उपयुक्त नियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों पर हरियाणा की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिगीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करने हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग में आर्बिटल करने हैं :--

चयन सूची-2002

क्र.सं. अधिकारी का नाम
सर्व/श्री
1. युधवीर सिंह ख्यालिया
2. रमेश कृष्ण
3. सुरजीत सिंह

चयन सूची-2004

अधिकारी का नाम
श्री महाराज कृष्ण महाजन

चयन सूची-2007

क्र.सं. अधिकारी का नाम
सर्व/श्री
1. प्रदीप कसनी
2. प्रवीण कुमार

चयन सूची-2008

क्र.सं. अधिकारी का नाम
सर्व/श्री
1. अभय सिंह यादव
2. मोहन लाल कौशिक
3. रोहतास सिंह खच
4. रमेश चंद वर्मा

2. प्रवर सूचियों में उपयुक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना, निम्नलिखित मामलों के अंतिम परिणाम के अध्ययन होगा :--

1. भारत संघ बनाम जे.डी. नहरवाल और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी(सी) सं. 6474/2003.
2. युधवीर सिंह ख्यालिया बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 13381/2006.
3. रमेश चंद वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 10367/1994.

4. प्रवीण कुमार बनाम लाजवीर सिंह और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 4092/1985.
5. हरियाणा राज्य बनाम लाजवीर सिंह द्वारा दायर एलपीए सं. 8/2008.
6. वजीर सिंह गोयत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 3549/2007.
7. श्री बृज भूषण कौशिक द्वारा दायर ओए सं. 805/एचआर/2008.
8. श्री अशोक कुमार बिशनोई बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओए सं. 58/एचआर/2009.

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2009

सं. 14015/06/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए गुजरात राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर गुजरात की राज्य सिविल सेवा के श्री पी. ए. शाह को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग में आबंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2009

सं. 19011/4/2007-प्रशा.1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 4/1/2007-के.से.1(डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) हेतु वर्ष 2003 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के श्री कर्ण सिंह चिबब को दिनांक 01-07-2003 से और अगले आदेशों तक के.स.से. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वाधवा, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 2009

सं. ए-19014/1/2003-प्र.सु.(प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा. संख्या 4/9/2008-सी.एस.1(डी) द्वारा श्री वी. के. मिश्र को केन्द्रीय सचिवालय

सी.एस.एस. के चयन ग्रेड के लिए वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल किये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 01-07-2006 से सी.एस.एस. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. 2/पी.बी.-III/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री रमेश चंद्र जोशी, 31-10-2008 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 31 अक्टूबर, 2008 के अपराहन में विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. 07(फा.सं. ए.19011/1/2009-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री राज कुमार, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर 79046) को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में दिनांक 15-01-2009 (पूर्वाहन) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रु. प्रति माह के ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड (पी.बी.-4) में उप महा निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. 08(फा.सं. ए.19011/17/2008-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) के वर्तमान सदस्य, श्री एस. एस. एन. मूर्ति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-73) को दिनांक 31-01-2009 (अपराहन) से अगले आदेश तक अथवा उनके अधिवर्षिता प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पहले है, रु. 80,000/- (नियत) के वेतनमान में भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के साथ वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस. एस. एन. मूर्ति, सदस्य, के.प्र.क.बोर्ड की के.प्र.क.बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति माननीय के. प्र. अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा दायर मूल आवेदन सं. 1687/2008 के अंतिम निर्णय पर निर्भर करती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 09(फा.सं. ए.19011/2/2009-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री सुधीर चंद्रा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-73005) को

दिनांक 31-01-2009 (अपरादन) से रु. 80,000/- (अपरादन) का दण्डमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत विशेष सचिव प्र. 1972 का साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाये।

2. श्री सुधीर चंद्रा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 1955 का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित पदों पर आनेवाले के अंतिम निर्णय के अधीन है :

- (i) सुश्री जे. डी. सहाय द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, अहमदाबाद पीठ (अथ प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानांतरित) में दायर मूल आवेदन सं. 40/2008
- (ii) सुश्री माला रामाकृष्णा द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई पीठ (अथ प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानांतरित) में दायर मूल आवेदन सं. 80/2008
- (iii) श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर मूल आवेदन सं. 1687/2008

वी. श्रीकृष्ण, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. 10:(फा.सं. ए. 12026/22/2004-प्रशा.)- इस विभाग के दिनांक 31-12-2004 की अधिसूचना सं. 112 के अन्तर्गत, राजस्व विभाग में सहायक महानिदेशक (उप-सचिव स्तर) के पद का जायतेमान में श्री संजय महेन्द्र, भारतीय राजस्व सेवा द्वारा भारतीय राजस्व एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-1992 को दिनांक 26-12-2008 से उनका लिए एक विशेष उपाय के रूप में, उनकी शेष कार्यकाल के लिए, जो 26-12-2009 तक होगा अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक महानिदेशक (निदेशक स्तर) के पद का निरूपण करते हैं।

वी. श्रीकृष्ण, अवर सचिव

दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 12:(फा.सं. ए. 19012/16/2005-प्रशा.)- इस विभाग के दिनांक 23-01-2006 की अधिसूचना सं. 7 के अन्तर्गत, राजस्व विभाग में उप सचिव श्री मधुकर कुमार भगत, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-1955) को दिनांक 01-01-2008 (पूर्वाहन) से 11-01-2009 तक उनके शेष पाँच साल के कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये।

वी. श्रीकृष्ण, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. 01/2009(फा.सं. 32012/01/2009-प्रशा.)- इस विभाग के सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत, निम्नलिखित के

मकवान, मुख्य लेखा अधिकारी (जन्म तिथि- 29-09-1950), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, भारतपूर की दिनांक 01-04-2009 (पूर्वाहन) से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का भुचन को स्वीकार करते हैं।

एल. आर. अग्रवाल, उप सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. वर्ष 2009 की 02 (फा.सं. ए-39012/29/2008-प्रशा. VI(क))--भारत के राष्ट्रपति, श्री गजेंद्र अग्रवाल, भारतीय राजस्व सेवा (89014), कार्यकारी निदेशक, भारतीय शिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई द्वारा केन्द्रीय सरकार सेवा से दिए गए त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

आर. एस. विष्ट, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2009

सं. ए. 12011/2/2009-प्रशा.2-- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 17-02-2009 के आदेश सं. 4/9-2008-सीएस-1(डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में अवर सचिव श्री स्वर्ण दास (सीएसएल सं.-4343) को 20 फरवरी, 2009 के पूर्वाहन से और अगले आदेश तक, 15,600--39,100/- रु. - 7,600/- (ग्रेड पे) के पे-बैंड-3 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 30-01-2009 के का.सा.सं.-4/9/2008-सीएस-11(डी) के तहत परिचालित वर्ष 2007 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की चयन ग्रेड (उप सचिव) की प्रवर सूची में श्री दास का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री स्वर्ण दास (सीएसएल सं. 4343) को 1 जुलाई, 2007 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

3. सीएसएस के चयन ग्रेड में श्री स्वर्ण दास की वारस्पदिक वरिष्ठता संबंधित प्रवर सूची में दिए गए क्रमांक के अनुसार होगी, चाहे उस ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख कुछ भी हो।

नीलम बोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2009

सं. ए. 12011/15/09-प्रशा.11-- राष्ट्रपति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी (उप-अवर) श्री एम. बी. वासुदेवन को 15,600--39,100/- रु. (ग्रेड पे) के पे-बैंड-3 (10,000--15,200/- रु. पूर्व संशोधित) के पे-बैंड में जल्द प्रतिनियुक्ति आधार पर आरम्भ में 31 मार्च, 2009 तक उप निदेशक (सीएसओ), समूह "क" राजपत्रित के अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाये।

उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमितकरण अथवा भविष्य में वरिष्ठता इत्यादि जैसे लाभों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. ए. 19011/2/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, श्री शक्तिकांत दास, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 80) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 25 फरवरी, 2009 के अपराह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पाँच वर्ष की बची हुई शेष अवधि अर्थात् 18-11-2013 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2009

सं. ए. 15012/1/2007-डीआरटी--श्री के. पी. कोटेचा, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई ने 10 फरवरी, 2009 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ दिया है।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने श्री ए. विजय कुमार, भूतपूर्व अपर विधायी काउंसिल, विधि एवं न्याय मंत्रालय को 11 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-I, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2008

सं. ए-ए-19011/287/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री वी. एस. मनियन, तदर्थ आधार पर कार्यरत प्रधान निजी सचिव को वर्ष 2003 की चयन सूची के अनुसार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में 20 फरवरी, 2009 से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. ए-ए-19011/217/2001-स्थापना--वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में उप सचिव श्री एम. के. मल्होत्रा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2009

सं. ए-12034/4/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में नियमित अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव कुमार की

6,600/- रुपए ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) के पे बैंड में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ग्रुप ए) के पद में तदर्थ नियुक्ति दिनांक 01-02-2009 से अगले छः माह की अवधि के लिए अथवा इस पद के नियमित अधिकारी के वापस आने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री राजीव कुमार को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति या वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देती है।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2009

सं. ए-22015/1/98-ई.II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2009 के का.ज्ञा.सं. 5/6/2004-सी.एस.II के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में कार्यरत श्री टी. एस. कोटीश्वरन, पीपीएस (तदर्थ) को दिनांक 6 फरवरी, 2009 से वाणिज्य विभाग के सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची वर्ष 2003 में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2009

सं. ए-32013/1/2009-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिवों) को, उनके नामों के सामने उल्लिखित चयन सूचियों के लिए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सीएसएल संख्या	नाम	चयन सूची वर्ष	अभ्युक्तियाँ
सर्वश्री				
1.	3528	एम. जे. सेबस्टियन	2003	
2.	3613	पी. पी. शर्मा	2003	31-05-2007 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त
3.	3665	ललन दास पीआरए	2004	
4.	3732	रवजीत सिंह	2005	
5.	3823	दिवाकर	2005	
6.	3855	वी. के. गुप्ता	2006	

2. उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में, अनुषोदित सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 2(सी)(iii) के अनुसार, संबंधित चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई से मानी जाएगी और उनका चेतन, एफ.आर.

22(1)(ए)(i) में वर्णित प्रवधानों के अनुसार कार्यरत आधार पर उसी संबंधित चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई से निर्धारित किया जाएगा। इस वर्ष में वे शामिल किए गए हैं। तथापि, उन्हें वास्तविक चिंतन लाभ उसी तारीख से देय होंगे जिस तारीख को वे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

परमजान सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ए-19011/02/2009-मा.सं.-II - राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-02-2009 के कार.जा.सं. 4 (2.2009-सीएस-1 (डी) के अनुसार श्री के. के. पद्मानाभन (सीएसएल सं. 1946 और डीएसएसएल-2006) का 01 जुलाई, 2006 से प-बैंड 15,600--39,100/- + 7,600/- (ग्रेड पे) में नियमित आधार पर सीएसएस संवर्ग में उप-सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए श्री के. के. पद्मानाभन को 27 फरवरी, 2009 (अपराधन) से उर्वरक विभाग में उप सचिव के रूप में सृचिबद्ध किया जाता है।

एस. अ. धाय, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2009

सं. 5(1)/2005-स्थापना - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06-02-2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2004-सीएस-II के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड 1 प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) की प्रवर सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप इस्पात मंत्रालय में तदर्थ प्रधान निजी सचिव श्री ए. के. चुघ को इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जी. वैभाश्वरण, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. ए-19011/11/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति डॉ. जे. के. पटेल, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-12-2008 (अपराधन) से मन्त्रालय सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं। उन्हें 01-01-2009 के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2009

सं. ए-19011/01/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री ग. व. कृष्णास्वामी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2009 के आदेश

सं. 4/9/2008-सी.एस.-1 (सी) की शर्तों के अनुसार 27-02-2009 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में नियमित आधार पर उपसचिव (वर्ष 2007 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2009

सं. ए-12015/2/2003-प्रशा. - राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05-11-2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सीएस-II के अनुसरण में कोयला मंत्रालय में तदर्थ आशुलिपिक ग्रेड क व ख (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की आशुलिपिक श्रीमती अंजना कालरा को 24 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक चयन सूची वर्ष 2005 (वरीयता कोटा) के आधार पर उपभोक्ता मामले में नियमित आधार पर 9,300--34,800/- रुपए (पं.वो.-2) के वेतन बैंड + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड क व ख (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

दिनांक 9 मार्च 2009

सं. ए-12011/15/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2008-सीएस-1 (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची वर्ष 2004 में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ उप सचिवों की 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। :-

क्र. सं.	नाम	सी एस एल सं.	टिप्पणी
1.	श्री ए. के. गांगुली	3637	अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 31-07-2008 को सेवानिवृत्त
2.	श्री आर. श्रीनिवासन	3646	अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 31-10-2008 को सेवानिवृत्त

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

सं. ए-12011/15/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के कार्यालय

ज्ञापन संख्या 4/9/2008-सीएस-I(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ उप सचिव श्री हरजिन्दर सिंह मल्ही को 1 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से उनके सेवानिवृत्त की तारीख 30-11-2008 तक उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2009

सं. ए-32014/1/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड-ग को चयन सूची वर्ष 2005 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में दिनांक 19-12-2008 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर 9,300--34,800/- रुपये + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में आशुलिपिक ग्रेड-क और ख (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं :-

श्रीमती सुमन माही

2. उक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 5 नवम्बर, 2008 के का.ज्ञा.संख्या 5/12/2007-सी.एस.-2 में निहित शर्तों के अधधीन है।

शिव कुमार गंडोत्रा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. ए-32012/1/2009-पी-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2008-सी.एस.-I(डी) द्वारा श्री आलोक अग्रवाल (सी.एस.एल. सं. 3776 ए) को उप सचिव के रूप में ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये सहित वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में वर्ष 2007 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के चयन ग्रेड की चयन सूची में उनके समावेश होने और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणाम स्वरूप 23-02-2009 अपराह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मोहन लाल बाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सी.एच.एस. विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2009

सं. ए-12025/08/2005-सी.एच.एस.III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. आलोक कुमार हेमल को 27-11-2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा की स्पेशियलिटी में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/27/2007-सी.एच.एस.III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अर्चना पुरी को 19-10-2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल शल्य चिकित्सा की स्पेशियलिटी में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. ए-12025/28/2007-सी.एच.एस.III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सिम्मी के. रतन को दिनांक 03-10-2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. ए-38020/1/2005-सी.एच.एस.VI--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर निम्नलिखित स्टाफ सर्जन (दंत) (एनएफएसजी) उनके समक्ष उल्लिखित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति का स्थान
1.	डॉ. पी. के. घोष	30-11-2008 (अपराह्न)	सीजीएचएस, हैदराबाद
2.	डॉ. कुलदीप कौशिक	31-01-2009 (अपराह्न)	सीजीएचएस, मेरठ

पवन कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. ए-22012/03/2008-स्थापना-III--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के आदेश संख्या ए-32012/01/2006-सी. एच.एस.-III के अनुसरण में, डॉ. एस. वैकटैश, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-I और जो इस समय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) में अपर परियोजना निदेशक के पद पर तैनात हैं, को उनकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप उसी संवर्ग में सुपर टाईम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एड्स नियंत्रण विभाग में 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 में उप महानिदेशक, नाको के पद पर नियुक्त करती हैं।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2009

सं. ए-19013/1-2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद्, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमके : 1996) को 23-02-2009 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करने हैं।

अरविन्द प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2009

सं. ए-38013/09/2008-स्थापना I--सी. एस. एस. का अधिकारी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात श्रीमती देविन्द्र कौर अधिवर्षिता के पद पर करने पर दिनांक 28 फरवरी, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा में नियुक्त हो गई हैं।

अरविन्द प्रसाद, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. 38012/01/2009-स्था. I--श्री जे. के. प्रभु, अवर सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त 28 फरवरी, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा में नियुक्त हुए।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 मार्च 2009

शुद्धि पत्र

सं. ए-19011/14/2006 प्रशासन-I--इस विभाग का दिनांक 12-10-2006 को समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक सुधार में प्रशारक अली, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय माल्यकारी शिक्षा मण्डल, मद्रास को इस विभाग में सहायक आयुक्त (माल्यकारी) के पद पर शान्तिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि को पांच (5) वर्ष के स्थान पर तीन (3) वर्ष बढ़ा जाए।

पी. राम, भागा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ए-23018/4/2007-स्थापना II--कार्मिक तथा प्रशिक्षण एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12-02-2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2004-सो.एस.11 के अन्वये म. प्र. राज्य की पदोन्नति के अनुमोदन के कलस्वरूप, राष्ट्रपति नियुक्तियों के प्रस्तावों को दिनांक 06-02-2009 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग के सीएमएसएस पदों के वेतन (रु. 15,600--39,100) से 6,600 रु. के ग्रेड पर वेतन आधार

पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनके नामों के सामने उल्लेख सूचक वर्ष की प्रवर सूची में शामिल किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पदस्थापन का स्थान	प्रवर सूची वर्ष
1.	श्री सुभाष चंद्र	सचिव (ग्रामीण विकास)	2003
2.	श्रीमती शोभा भाटिया	पंचायती राज मंत्रालय	2004
3.	श्री आर. के. सपथल	पंचायती राज मंत्रालय	2004

महावीर प्रसाद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2009

सं. 3-7/2004-एन.आई-11/डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अनर्नियम के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में श्री आर. एन. यादव, उप महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, फरीदाबाद को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में, दिनांक 26 फरवरी, 2009 के प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त करते हैं।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

सं. 3-7/2004-एन.आई-11/डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अनर्नियम के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में डॉ. अरविन्द प्रसाद, भा.प्र.से. (विहार : 80), संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सुश्री पुष्पिमा सिंह, संयुक्त सचिव के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में, दिनांक 26 फरवरी, 2009 के प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 3(3)/2009 कार्मिक I--राष्ट्रपति जी, ने स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर उप निदेशक, श्रीमती आर. के. जुनेजा को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 04-03-2009 के पूर्वाह्न से 6,600 रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100 रु. के वेतन बैंड-3 के संशोधित ढाँचे में नियमित आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है।

2. वे अपनी नियुक्ति के तारखे से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्द्धनीय रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 2009

सं. ए-35013/01/2007-प्रशा.-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर, तदर्थ उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के रूप में स्थानापन्न निम्नलिखित सहायक महानिदेशकों को एतद्वारा भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय में दिनांक 04-02-2009 से अस्थायी हैसियत में नियमित आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए (पूर्वसंशोधित) पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए (संशोधित) के वेतनमान में उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जाता है :--

1. श्री एम. एन. जावेद
2. श्रीमती रोमा सिंह नौगीपियूर
3. श्री डी. के. बरुआ

बी. एन. प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 फरवरी 2009

सं. ए-35018/03/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री देवेश चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 89) को, श्री संजय कौठारी (भा.प्र.से.) (हरियाणा : 78) के स्थान पर, दिनांक 19-02-2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 27-06-2012 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पर्यटन मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपए + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन के पे बैंड (पी.बी.-4) में अपर महानिदेशक (पर्यटन) के रूप में, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उमेश कुमार कालरा, निदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ईआरबी-1/2009/2/1--राष्ट्रपति, श्री वी. के. दत्त, उ.प्र.ग्रे./भा.रे. बि.इंजी.से., सलाहकार (बिजली)/रेलवे बोर्ड को 09-02-2009 के अपराह्न से 75,500--80,000/- रुपए के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (बिजली)/रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2009/2/20--राष्ट्रपति, श्री ए. के. गोयल, भार.रे.या.से., महाप्रबंधक, पूर्व तट रेलवे को 26-02-2009 के पूर्वाह्न से 80,000/- रुपए (नियत) के ग्रेड में सदस्य (कार्मिक) एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2005/14/6--रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर आरबीएसएसएस के निजी सचिवों (पे बैंड 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,800/- रुपए) के रूप में पदोन्नत किया गया है :--

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	रमेश कुमार	18-02-2009 (पूर्वाह्न)
2.	अजीत कुमार	18-02-2009 (पूर्वाह्न)
3.	अंजु कपूर	18-02-2009 (पूर्वाह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्डपोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. ए-12026/2/2009-ई-1(बी)--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 06-02-2009 के का. जा. सं. 5/6/2004-सी.एस.-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) की 2004 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिवों, श्रीमती आर. विजया कुमारी और श्री राम किशन जो इस समय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को इसी मंत्रालय में पीबी-3 (15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे) में दिनांक 24-02-2009 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2009

सं. 25/5/2008-आर एंड आर (खंड-II)--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री वी. एस. वर्मा, को 23 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. ए-22017/1/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र सिंह, आई. टेली. एस. (95) को दिनांक 16-02-2009 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 27th February 2009

No. 2/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	S. K. Patra	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
2.	R. Phani Bhushan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Vaishali Shimpi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	Rakesh Shukla	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	Anitha Naidu	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 28.01.2008 until further orders.

Sl. No.	Name
1	2
	Shri/Smt./Kum.
1.	N. Ashokanand
2.	Manu Sagar K. V.
3.	S. Amalesh
4.	Velmurugan K.
5.	S. Plato
6.	T. G. Madhavan
7.	S. Krishna
8.	A. S. Ramasubramanian
9.	Harjit Singh
10.	Vijayakumar R.
11.	Somenath Dey
12.	Parag Barman
13.	Debadatta Mishra
14.	Rijin K. V.
15.	Gaurav Sharma

1 2

- Shri/Smt./Kum.
16. Yogesh Jamthe
 17. Sourabh Karmarkar
 18. Rashmita Mohanty
 19. Sirisha Kuchibhotla
 20. Singh Saurabh Kumar Sahendra
 21. Alok Singh
 22. Amit Kumar Yadav
 23. Kiran R.
 24. Gaurav Bansal
 25. Amardip Kumar
 26. Chinmoy Mondal
 27. Umanand Sharma

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt./Kum.		
1.	K. Lalitha	PSO	30.07.2008
2.	P. M. Lily	PSO	31.07.2008
3.	L. Premalatha	PSO	30.07.2008
4.	Philipose M. C.	PSO	30.07.2008
5.	Lalukumari P. S.	PSO	31.07.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Gino P. Joy	29.01.2008
2.	Arun Prakash N.V. S.	16.06.2008
3.	Preethisree G.	16.06.2008
4.	Sanand T. V.	16.06.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala of the Department of Space in an officiating capacity w.e.f. the Forenoon of 01.01.2008 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
	Shri/Smt. Kum.	
1.	Sasidharan Nair K.	Scientist/Engineer-III
2.	J. Suresh Jeevan	Scientist/Engineer-III
3.	Anantharam Reddy H. S.	Scientist/Engineer-III
4.	Manimaran A.	Scientist/Engineer-III
5.	Shambhu Nath Singh	Scientist/Engineer-III
6.	Shaji K.	Scientist/Engineer-III
7.	Krishnanandan A.	Scientist/Engineer-III
8.	Niteen B. Katagade	Scientist/Engineer-III
9.	K. Monysekhar	Scientist/Engineer-III
10.	Raveendran P.	Scientist/Engineer-III
11.	Venuprasad P.	Scientist/Engineer-III
12.	Kamatchi K.	Scientist/Engineer-III
13.	Ramesh C.	Scientist/Engineer-III
14.	Sam Zacharia	Scientist/Engineer-III
15.	Alex Samuel	Scientist/Engineer-III
16.	Karthikeyan M.	Scientist/Engineer-III
17.	Ruthurashi C.	Scientist/Engineer-III
18.	Banti Rama Rao	Scientist/Engineer-III
19.	Suma M. N.	Scientist/Engineer-III
20.	S. Rajeswari	Scientist/Engineer-III
21.	Mohanadasan K.	Scientist/Engineer-III
22.	Baiju Issac	Scientist/Engineer-III
23.	S. Muthulekshmi	Scientist/Engineer-III
24.	S. Daisy Agnes Bami	Scientist/Engineer-III
25.	S. Venkata Krishnan	Scientist/Engineer-III
26.	N. Vijayamohanam Nair	Scientist/Engineer-III
27.	C. Sudha	Scientist/Engineer-III
28.	G. Nageswaran	Scientist/Engineer-III
29.	Jegesh David	Scientist/Engineer-III
30.	S. Nanthakumar	Scientist/Engineer-III
31.	Umapathi J.	Scientist/Engineer-III
32.	K. G. Pavanam	PSO
33.	B. R. Manjunatha Rao	PSO

MANOHAR L. VANNIAK, Dy. Secy.

No. 7/1 (1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2008 until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
1	2	3
	Shri/Smt. Kum.	
1.	S. K. Govindarajan	Scientist/Engineer-SG
2.	B. Chellathurai	Scientist/Engineer-SG
3.	M. V. Narasimha Prasad	Scientist/Engineer-SG
4.	V. N. Misale	Scientist/Engineer-SG
5.	Satish Chandra Kumar	Scientist/Engineer-SG
6.	T. Perumal	Scientist/Engineer-SG
7.	Gerald Moses Oliver	Scientist/Engineer-SG
8.	V. Kumaraswamy	Scientist/Engineer-SF
9.	V. Ganapathy Subramanian	Scientist/Engineer-SF
10.	K. S. Venkateswaran	Scientist/Engineer-SF
11.	R. Santhanam	Scientist/Engineer-SF
12.	P. Karthick	Scientist/Engineer-SF
13.	Reji Joseph	Scientist/Engineer-SF
14.	Srinivasan R.	Scientist/Engineer-SF
15.	Ganesh Pillai M.	Scientist/Engineer-SF
16.	R. Sudalai Kannu	Scientist/Engineer-SF
17.	V. Selva Kumar	Scientist/Engineer-SF
18.	S. Ramachandran	Scientist/Engineer-SF
19.	V. Kalimuthan	Scientist/Engineer-SF
20.	Shaik Shamshul Haq	Scientist/Engineer-SF
21.	Gowri Shankar Warti	Scientist/Engineer-SF
22.	Raju K. J.	Scientist/Engineer-SF
23.	Jijimon N. K.	Scientist/Engineer-SF
24.	Pradeep Kumar G.	Scientist/Engineer-SF
25.	K. V. Krishnamurthy	Scientist/Engineer-SF
26.	M. Singaravelu	Scientist/Engineer-SF
27.	P. Padmanabhan	Scientist/Engineer-SF
28.	D. Thomas	Scientist/Engineer-SF
29.	P. Rajendran	Scientist/Engineer-SF
30.	J. Bright Nelson	Scientist/Engineer-SF
31.	T. Anitha	Scientist/Engineer-SF
32.	S. Murugan	Scientist/Engineer-SF
33.	M. Subramanian	Scientist/Engineer-SF

1	2	3
34.	S. Raveendran	Scientist/Engineer-SD
35.	P. Vincent	Scientist/Engineer-SD
36.	A. Cross Sapna	Scientist/Engineer-SD
37.	S. Kamal	Scientist/Engineer-SD
38.	Ninish S.	Scientist/Engineer-SD
39.	N. Babukuttan	Scientist/Engineer-SD
40.	Anil George	Scientist/Engineer-SD
41.	Nityananda Sahoo	Scientist/Engineer-SD
42.	Sujith K Rajan	Scientist/Engineer-SD
43.	Joby V. Thomas	Scientist/Engineer-SD
44.	Bhagavathy Lakshmy L.	Scientist/Engineer-SD
45.	Kumaresan D.	Scientist/Engineer-SD
46.	Anil Kumar M.	Scientist/Engineer-SD
47.	Gopakumaran Nair K. M.	Scientist/Engineer-SD
48.	Jagadeesh Peddiraju	Scientist/Engineer-SD
49.	Biswaroop Sarkar	Scientist/Engineer-SD
50.	Ajith B.	Scientist/Engineer-SD
51.	Rajakumaran Nair R.	Scientist/Engineer-SD
52.	Ashish Kumar Karthikeya	Scientist/Engineer-SD
53.	Gopalakrishnan K. M.	Scientist/Engineer-SD
54.	Zachariah Amalraj R. V.	Scientist/Engineer-SD
55.	Ashok Kulkarni	Scientist/Engineer-SD
56.	Vidya Karthikeyan	Scientist/Engineer-SD
57.	V. Balamurugan	Scientist/Engineer-SD
58.	M. Narendra	Scientist/Engineer-SD
59.	K. R. Rajesh	Scientist/Engineer-SD
60.	R. Sumathi	Scientist/Engineer-SD
61.	S. N. Ram	Scientist/Engineer-SD
62.	Sreekumar S. V.	Scientist/Engineer-SC
63.	Shajil Mani	Scientist/Engineer-SC
64.	Nanu T.	Scientist/Engineer-SC
65.	Mohandas J.	Scientist/Engineer-SC

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (2)/2009-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of

the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum		
1.	Anadi Kanta Ray	Scientist/Engineer-H	31.08.2008
2.	Sivasubramanian N.	Scientist/Engineer-H	30.11.2008
3.	Subramonia Iyer H.	Scientist/Engineer-SG	31.08.2008
4.	Umarao Singh H.	Head, Purchase & Stores	30.09.2008
5.	Hameed Rawther P. S.	Scientist/Engineer-SE	30.09.2008
6.	Raveendran Pillai P. C.	Head, Acct/IFA	30.11.2008
7.	Sasidharan Nair R.	Scientist/Engineer-SC	31.01.2009
8.	Abraham N. J.	Scientist/Engineer-SC	31.10.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (2)/2009-I—Consequent on acceptance of resignation the following Scientists/Engineers in the Liquid Propulsion systems Centre, Valiamala of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum		
1.	Akash Rajan	Scientist/Engineer-SC	04.11.2008
2.	R. Tamil Selvan	Scientist/Engineer-SD	08.12.2008
3.	Umanand Sharma	Scientist/Engineer-SC	16.01.2009

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 7/1 (2)/2009-I—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum		
1.	Ananta Samanta	Scientist/Engineer-SC	05.09.2008
2.	Kolekar Nitin Sonapa	Scientist/Engineer-SC	11.07.2008
3.	D. Johney	Scientist/Engineer-SD	01.01.2009

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th February 2008

No. F. 6 (2081)/2009-Adm. I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 14/8/2008-EO (SM. I)

dated 24th January, 2009. Shri R. Bhattacharya, IAS (AP - 78) has assumed charge as Senior Adviser in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 2nd February, 2009.

ANIL MAHAPATRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 18th February 2009.

No. A-44011-2-2004-Adm. I.- In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Communication No. 11024-5-2008-ISS dated 19.2.2009 and in partial modification of Planning Commission's Notification of even number dated 12.1.2009, Dy. Jayendra Verma, ISS is granted ad hoc promotion to S.A. - ISS in Pay Band 4 i.e. Rs. 37,400 - 67,000 - Rs. 12,000 grade pay [Rs. 18,400-500-22,400 - (pre-revised) w.e.f. 01.06.2007] i.e. the date he reported back to ISS Cadre after completion of his foreign assignment.

2. The ad hoc promotion is subject to the outcome of the various court cases including W.P. No. 1508/08 and other CMPs connected therewith and higher authorities of the Government.

3. It is made clear that this promotion has been made purely as a temporary measure as a stopgap arrangement and can be withdrawn/cancelled any time without assigning any reason. The promotion shall not bestow on him any claim for regular appointment and ad hoc service will not be counted for the purpose of seniority in the grade and for eligibility for promotion etc.

S. KESAVA DY. RAO, Dy. Secy.

The 20th February 2009.

CORRIGENDUM

No. F. 6 (2081) 2009-Adm. I. - In exercise of Planning Commission's Notification of even number regarding appointment of Shri R. Bhattacharya, IAS (AP - 78) as Senior Adviser in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 2nd February, 2009. The date of issue of the Notification may be read as 4th February, 2009 instead of 4th February, 2008.

S. KESAVA DY. RAO, Dy. Secy.

The 2nd March 2009.

No. F. 6 (1561) 92-Adm. I (Vol. II) - In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. 10001/92 dated 23.02.2009 issued from their File No. 10001/92-93-I.S. Shri K. L. Datta, an officer of SAG level, is relieved of his assignment in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 1st March 2009 to take up his new assignment as Joint Secretary, Adviser in Department of Rural Development.

S. KESAVA DY. RAO, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st March 2009.

No. A-12026-5-2009-Adm. I (L.D.) - On his transfer from the Department of Personnel & Training vide their Office Order No. A-32013-1-2009-Ad. I, dated 5th March, 2009 and joining in this Department, with effect from the forenoon of the 5th March, 2009, Shri Kandeep Kumar, Deputy Secretary has been taken on the strength of Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the same date and until further order.

L. R. RAO, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2009.

No. A-12026-6-06-Adm. I (L.A.) - The Competent Authority in this department is pleased to appoint Shri Jayant Kumar, Oneota, Assistant (Legal) of this Department, as Superintendent (Legal) (General Central Service, Group B, Gazetted Post) on ad hoc basis in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, in the pay band PB-2 with pay scale of Rs. 9,300 - 34,800 - and grade pay of Rs. 4,800 - for a period of six months with effect from the forenoon of 19th January, 2009 and until further orders.

2. The above ad hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment to the post of Superintendent (Legal) nor will the service so rendered by him shall count for the purpose of seniority in the grade or for promotion to the next higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110001, the 27th February 2009.

No. K-13023-5-2008-10-11 - In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Sanjay Yadav and (ii) Shri Kedar Singh Chauhan, to be Additional Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of one year with effect from 2.3.2009.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 4th March 2009.

No. K-13029-2-2008-10-11 - In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Atiab Hussain Saikia, Judge of the Gauhati High Court, to be the Chief Justice of the Sikkim High Court with effect from the date he assumes charge of his Office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K-13026/7/2008-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Jacob Benjamin Koshy, Judge of the Kerala High Court, to be the Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his Office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K-13012/8/2008-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Chandramauli Kumar Prasad, Judge of the Patna High Court, to be the Chief Justice of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes charge of his Office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K-13022/4/2008-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Samindar Rudreyya Bannurmath, Judge of the Karnataka High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his Office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K-13028/4/2008-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Deepak Verma, Judge of the Karnataka High Court, to be the Chief Justice of the Rajasthan High Court with effect from the date he assumes charge of his Office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 26th February 2009

No. 14016/1/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years :—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth	With effect from
	S/Shri/Smt.			
1.	Jaldhari Lal Meena	D-I/345	24.07.1957	03.07.2008
2.	Rach Pal Singh	D-I/648	04.04.1951	20.10.2008
3.	Balwan Singh	D-I/974	07.05.1952	13.01.2009
4.	Ranvir Singh	D-I/678	07.08.1950	With immediate effect

2. The appointment of the above mentioned 4 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another and CWP No. 11356-62/2006-J. K. Jain & Others Versus Union of India & Others in the Hon'ble High Court of Delhi.

3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that the aforesaid, Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi-1, the 9th March 2009

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri L. Sailo, an Indian Police Service Officer of 1987 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories retired from service in the afternoon of 28th February, 2009.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 17th March 2009

No. I-11014/6/2008-IPS-IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, the Central Government hereby transfer Shri Nitin Tiwari, IPS (AP : 2007), from Andhra Pradesh to the IPS cadre of Uttar Pradesh on the ground of his marriage with Ms. Deepika Garg, IPS (UP : 2007).

RAJINDER KUMAR
Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110001, the 6th March 2009

No. 24012/3/2009-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Asha James, IAS (AGMU : 93) a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of AGMU, from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of the notification.

HARJOT KAUR, Dir. (Services)

New Delhi, the 25th February 2009

No. A-32013/5/2008-Ad. I (G).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of the year 2006 for the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of personnel and training's O.M. No. 4/9/2008-CS. I (D) dated 30th January,

2009, the President is pleased to appoint the following officers of Department of Personnel and Training, on the Selection Grade (Deputy Secretary) of posts on a regular basis with effect from 1.07.2006 and to issue other orders :—

Sl. Name of the Officer
No.

1. Sh. Chanan Ram, Deputy Secretary
2. Ms. Anuradha S. Chagti, Deputy Secretary
3. Sh. V. K. Velukutti, Deputy Secretary

HARISH CHANDI, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2009

No. 14012/12 2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt. Sripriya Rengarajan, a member of the Indian Administrative Service, borne on the West Bengal cadre of 2003 batch, in the Indian Administrative Service with effect from 12.12.2005.

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 6th March 2009

No. 14012/15 2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
1.	Smt. Palka Sahni	2004	01.07.2006
2.	Sh. R. Lakshmanan	2004	01.07.2006
3.	Sh. Birendra Prasad Yadav	2004	01.07.2006
4.	Sh. Abhay Kumar Singh	2004	01.07.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 16th March 2009

No. 14013/01 2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members

of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam-Meghalaya, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
1.	Sh. Jones Ingti Kabbar	1990	30.12.1997
2.	Sh. Ritendra Nath Sharma	1990	30.12.1997
3.	Sh. Laxmi Nath Janday	1990	30.12.1997
4.	Sh. Joy Chandra Goswami	1992	28.06.2002
5.	Sh. Hemanga Kisore Sharma	1992	10.12.2005
6.	Sh. J. Lyngdoh	1995	05.03.2002
7.	Sh. S. E. Khongwir	1995	05.03.2002
8.	Smt. M. H. K. Marak	1995	05.03.2002
9.	Sh. H. L. Pyrtuli	1995	05.06.2003
10.	Sh. B. Dhar	1996	21.01.2004
11.	Smt. L. Kharkongor	1996	22.01.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2009

No. 14015/07 2008-AIS (I)-A—In exercise of the powers conferred by rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Haryana containing the following names prepared on 18th December, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 3rd March, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Haryana under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List years from 2002 to 2008 :

SELECT LIST 2002

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Yudhbir Singh Khurana	25.10.1954
2.	Lajvir Singh	04.06.1950
3.	Ramesh Krishan	20.03.1956
4.	Jai Paul Singh Dangra	15.03.1948
5.	Surjeet Singh	01.06.1953

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
---------	---------------------	---------------

SELECT LIST 2004

1.	S/Shri Maharaj Krishan Mahajan	20.01.1952
----	--------------------------------	------------

SELECT LIST 2007

1.	Pradeep Kasni	25.02.1958
2.	Praveen Kumar	29.08.1960

SELECT LIST 2008

1.	Abhe Singh Yadav	15.03.1955
2.	Mohan Lal Kaushik	23.05.1956
3.	Rohtas Singh Kharb	15.11.1958
4.	Ramesh Chand Verma	10.12.1954

The inclusion of the above officers in the Select Lists shall be subject to final outcome of the following cases :—

1. WP (C) No. 6474/2003 filed by Union of India Vs. J. D. Naharwal & ors.

2. CWP No. 13381/2006 filed by Yudhbir Singh Khyaliya Vs. CAT & ors.

3. CWP No. 10367/1994 filed by Ramesh Chand Verma Vs. State of Haryana & ors.

4. CWP No. 4092/1985 filed by Parveen Kumar Vs. Lajveer Singh & ors.

5. LPA No. 8/2008 filed by State of Haryana Vs. Lajveer Singh.

6. CWP No. 3549/2007 filed by Wazeer Singh Goyat & Ors. Vs. State of Haryana & ors.

7. OA No. 805/HR/2008 filed by Shri Brij Bhushan Kaushik.

8. OA No. 58/HR/2009 filed by Sh. Ashok Kumar Bishnoi Vs. Union of India.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/07/2008-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2002, 2004, 2007 and 2008, on probation until further orders and to

allocate them to the IAS Cadre of Haryana, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

SELECT LIST 2002

1.	S/Shri Yudhbir Singh Khyaliya
2.	Ramesh Krishan
3.	Surjeet Singh

SELECT LIST 2004

1.	Maharaj Krishan Mahajan
----	-------------------------

SELECT LIST 2007

1.	Pradeep Kasni
2.	Praveen Kumar

SELECT LIST 2008

1.	Abhe Singh Yadav
2.	Mohan Lal Kaushik
3.	Rohtas Singh Kharb
4.	Ramesh Chand Verma

The appointment of the above officers in the Select Lists shall be subject to final outcome of the following cases :—

1. WP (C) No. 6474/2003 filed by Union of India Vs. J. D. Naharwal & ors.

2. CWP No. 13381/2006 filed by Yudhbir Singh Khyaliya Vs. CAT & ors.

3. CWP No. 10367/1994 filed by Ramesh Chand Verma Vs. State of Haryana & ors.

4. CWP No. 4092/1985 filed by Parveen Kumar Vs. Lajveer Singh & ors.

5. LPA No. 8/2008 filed by State of Haryana Vs. Lajveer Singh.

6. CWP No. 3549/2007 filed by Wazeer Singh Goyat & Ors. Vs. State of Haryana & ors.

7. OA No. 805/HR/2008 filed by Shri Brij Bhushan Kaushik.

8. OA No. 58/HR/2009 filed by Sh. Ashok Kumar Bishnoi Vs. Union of India.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 12th March 2009

No. 14015/06/2008-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion)

Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri P. A. Shah, a member of the State Government Service of Gujarat to the Indian Administrative Service, filling the vacancies determined by Government Order under Regulation 5(1) of the said Regulations in accordance with the State Government for the Select List of 2005, on probation until further orders and to a cadre in the Gujarat Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 26th February, 2009

No. 19014/2007-Ad. 1—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of the year 2007, in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/1/2007-C.S. (I) (D) dated 26th December, 2008, the President is pleased to appoint Shri Karan Singh, Jharkhand Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, vide Department's O. M. No. 4/1/2007-C.S. (I) (D) dated 26th December, 2008, with effect from 01.07.2003 and until further orders.

A. K. WADIWALA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 2nd March, 2009

No. A-19014/1/2003-AR (Ad. 1)—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2003, in the Selection Grade of Central Secretariat vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 4/1/2003-C.S. (I) (D) dated 30th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri V. K. Misra to the Selection Grade of Central Secretariat (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2003.

A. K. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th November, 2008

No. 2 PB/H/2008—On the occasion of completion of superannuation, Shri Ramesh Chander, a member of the Sr. PPS Grade of the Stenographer's Cadre, Central Secretariat Service retired from Government Service on 31.10.2008 and relinquished charge of his duties as Principal Private Secretary in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 31st October, 2008.

19014/2008-Ad. 1
Administrative Officer, PB-13

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 28th January, 2009

No. 07 (E. No. A-19014/1/2009-Ad. 1)—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar, IRS (IT : 79046), as Deputy Director General in the Central Economic Intelligence Bureau under the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000— with Grade Pay of Rs. 10,000— per month for a period of 5 years with effect from 15.01.2009 (E.N.) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd February, 2009

No. 08 (E. No. A-19014/1/2008-Ad. 1)—The President is pleased to appoint Shri S. S. N. Moorthy, Indian Revenue Service (IT : 73), presently Member, Central Board of Direct Taxes (CBDT) as Chairman, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue, Ministry of Finance, in the pay scale of Rs. 80,000— (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India w.e.f. 31.01.2009 (AN) and until further orders or until his superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri S. S. N. Moorthy, Member, CBDT, as Chairman, CBDT is subject to the final decision of the Original Application No. 1687/2008 filed by Shri Narindar Singh before the Hon'ble C.A.T. Principal Bench, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 09 (E. No. A-19014/2/2009-Ad. 1)—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Chandra, IRS (IT : 73005) as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 80,000— (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 31.01.2009 (AN), until further orders or his superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Sudhir Chandra, IRS (IT : 73005), as Member, CBDT is subject to the final outcome of the following Original Applications :

- (i) O. A. No. 40/2008 filed by Ms. J. D. Sahay before the Hon'ble C.A.T. Ahmedabad Bench (now transferred to the Principal Bench, New Delhi);
- (ii) O. A. No. 180/2008 filed by Ms. Mala Ramakrishnan before the Hon'ble C.A.T. Mumbai Bench (Now transferred to the Principal Bench, New Delhi); and
- (iii) O. A. No. 168/2008 filed by Shri Narindar Singh before the Hon'ble C.A.T. Principal Bench, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th February 2009

No. 10 (F. No. A-12026/22/2004-Ad. I)—In continuation of this Department's Notification No. 112, dated 31.12.2004, the President is pleased to upgrade the post of Assistant Director General (Deputy Secretary level), presently held by Shri Sanjay Mohendru IRS (C & CE : 1992) in the Department of Revenue, to that of Assistant Director General (Director level) w.e.f. 26.12.2008, as a measure personal to him, for the balance period of his tenure, which would be upto 26.12.2009 or until further orders, whichever occurs earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 23rd February 2009

No. 12 (F. No. A-19012/16/2005-Ad. I)—In continuation of this Department's Notification No. 7, dated 23.01.2006, the President is pleased to appoint Shri Madhukar Kumar Bhagat, IRS (It : 95) Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue w.e.f. 01.01.2008 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e., upto 11.01.2011 or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

C.B.E.C.

New Delhi, the 9th March 2009

No. 1 of 2009 (F. No. A-32012/01/2009-AD.IIA)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri I. K. Macwan, Chief Accounts Officer (DOB—29.09.1950), Central Excise Commissionerate, Bhavnagar with effect from 01.04.2009 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules 1972.

L. R. AGGARWAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th March 2009

No. 02 of 2009 (F. No. A-39012/29/2008-Ad.VIA)—The President is pleased to accept the resignation given by Shri Rajiv Aggarwal, IRS (89014), Executive Director, Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai from Central Govt. Service with immediate effect.

R. S. BIST, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 3rd March 2009

No. A. 12011/2/2009-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 17.02.2009, the President is pleased to appoint Shri Swarn Dass (CSL No. 4343), Under Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance as Deputy Secretary in the

Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the Pay Band PB-3 of Rs. 15600—39000 plus Rs. 7600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 20th February 2009 and until further orders.

2. Further, consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2007 circulated vide Department of Personnel & Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I (D) dated 30.1.2009, the President is pleased to appoint Shri Swarn Dass (CSL No. 4343), to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July 2007.

3. The inter-se seniority of Shri Swarn Dass in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in the respective Select List, irrespective of his actual date of appointment to that Grade.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 12th March 2009

No. 12011/15/08-Ad-I A—The President is pleased to appoint Shri M. V. Vasudevan, Technical Officer (TRU) in the Department of Revenue, Ministry of Finance to the temporary post of Deputy Director (DMO), Group "A" Gazetted in the pay band 3 Rs. 15600-39100 + Rs. 6600 as grade pay (Rs. 10000—15200 pre revised) on ad hoc Deputation basis initially up to 31 March, 2009.

The above ad hoc appointment will not confer any right for regularization or for benefits such as seniority etc. on a future date.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2009

No. A-19011/2/2009-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Shaktikanta Das, IAS (TN : 80), as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the afternoon of 25th February 2009 for the balance period of his central deputation of five years i.e. upto 18.11.2013 or until further orders, whichever is earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 2nd March 2009

No. A-15012/1/2007-DRT—Shri K. P. Kotecha, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai, demitted the charge of Presiding Officer with effect from 10th February, 2009 (AN)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993),

the Central Government has appointed Shri V. S. Manian, Ex-Additional Legislative Counsel, Ministry of Law and Justice, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Mumbai, for a period of five years with effect from 11th February, 2009 (forenoon) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

A. LINGMA, Under Secy.

New Delhi, the 24th February, 2009.

No. A-A-19011-287-2008-Estt. -The President is pleased to appoint Shri V. S. Manian, presently working as Principal Private Secretary on ad hoc basis, as regular Principal Private Secretary of CSSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from 20th February, 2009 against the Select List 2003.

RAMAN KUMAR GUPTA, Under Secy.

The 27th February 2009.

No. A-19011-217-2001-Estt. -On attainment of age of superannuation Shri M. K. Malhotra, Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services will retire from the government service with effect from the afternoon of 28th February, 2009.

RAMAN KUMAR GUPTA, Under Secy.

The 3rd March 2009.

No. A-12034-4-2004-Estt. -The President is pleased to continue the ad hoc appointment of Shri Satish Kumar, a regular Research Officer in the Department of Financial Services, Ministry of Finance in the post of Senior Research Officer (Group-A) in the pay band of Rs. 15,600/- (PB-3) with grade pay of Rs. 6,600/- for a further period of six months w.e.f. 1.2.2009 or till repatriation of the regular incumbent of the post from deputation or until he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

2. The Ad hoc appointment shall not confer on Shri Satish Kumar any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the grade of Senior Research Officer.

RAMAN KUMAR GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th March 2009.

No. A-22015-198-1-01 -In pursuance of the order of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 56001-1 dated 6th February, 2009, the President is pleased to appoint Shri T. S. Koteeswaran, PPS (ad-hoc) in the Department of Commerce, on regular basis in the Select List No. 2003 at

Principal Private Secretary Grade of CSSS cadre of the Department of Commerce w.e.f. the 6th February, 2009.

RAM LAKHAN, Under Secy.

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 5th March 2009.

No. A-32013-1-2009-Cadre - The President is pleased to appoint the following regular Grade-I officers (Under Secretaries) of CSS, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, against the Select Lists mentioned against their names :-

Sl. No.	CSL No.	Name	Select List Year	Remarks
1.	3528	S. Shri M. J. Sebastian	2003	
2.	3613	P. B. Sharma	2003	Retired on 31.05.2007 (AN)
3.	3665	Uman Das	2003	
4.	3732	Rayjit Singh	2003	—
5.	3823	Diwakar	2003	—
6.	3855	V. K. Gupta	2003	

2. Approved service in respect of above mentioned officers, counts from the 1st July of the respective Select List Year, in terms of Rule 29(a)(ii) of the CSS Rules 1962, and the pay of above mentioned officers may be fixed in terms of the provisions contained in FR 22(I)(a)(i) i.e. w.e.f. 1st July of the respective Select List year in which they have been so included, on notional basis. The actual financial benefits, however, would be available only from the date the officers are so appointed and assumed the charge of the post of Deputy Secretary.

PARMJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 13th March 2009.

No. A-19011-02-2009-FRT - The President is pleased to appoint Shri K. K. Padmanabhan (CSL No. 3946 & DSSI-2006) as Deputy Secretary of CSS Cadre on regular basis w.e.f. 1st July, 2006 as per Department of Personnel & Training's O.M. No. 412-2001-CS-1(Dt), dated 13.02.2009 in the Pay Band of Rs. 15,600/- to 39,100/- (7,600/- (Grade Pay) and Shri K. K. Padmanabhan, is taken on the rolls of the Department of Fertilizers as Deputy Secretary w.e.f. 27th February, 2009 (AN).

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 3rd March 2009.

No. 5 (1)-2005-Estt. -Consequent on inclusion of his name in the Select List of Private Secretary Grade (designated

as Principal Private Secretary) of CSSS for the Year 2004 vide DOPT's O. M. No. 5/6/2004-CS. II dated 6.2.2009, Shri A.K. Chugh, ad hoc PPS of the Ministry of Steel is appointed as Principal Private Secretary on a regular basis in CSSS cadre of Ministry of Steel.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 27th February 2009

No. A-19011/11/2006-Admn.—The President is pleased to permit Dr. G. K. Pallan, Sr. Marketing Officer, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31.12.2008 on his attaining the age of superannuation. He is transferred to pension Establishment w.e.f. the forenoon of 01.01.2009.

S. K. NANDA, Under Secy.

The 12th March, 2009

No. A-19011/1/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P. Vinayagam as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS in the year 2007) on regular basis in the Ministry of Food Processing Industries with effect from 27.2.2009 (AN) in terms of Department of Personnel & Training's Order No. 4/9/2008-CS. I (C) dated 17th February, 2009.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th March 2009

No. A-12015/2/2003-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/12/2007-CS. II, dated 5.11.2008, the President is pleased to appoint Smt. Anjana Kalra, ad hoc Steno Grade -A & B (Merged) (Private Secretary) of CSSS Cadre in the Ministry of Coal as Steno Grade A&B (Merged) (Private Secretary) of CSSS on regular basis in the Department of Consumer Affairs against the Select List Year, 2005 (Seniority quota) in the Pay Band Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 24th February, 2009 and until further orders.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

The 9th March 2009

No. A-12011/15/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2004 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/4/2008-CS. I (D), dated 7th January, 2009, the President is pleased to appoint the following ad hoc Deputy Secretaries of CSS of this Department as Deputy Secretary of CSS on regular basis in

the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 1st July, 2004 :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Remarks
1.	Sh. A. K. Ganguly	3637	Retired on superannuation on 31.7.2008.
2.	Sh. R. Srinivasan	3646	Retired on superannuation on 31.10.2008.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

No. A-12011/15/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2006 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/9/2008-CS. I (D), dated 30th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri Harjinder Singh Malhi, ad hoc Deputy Secretary of CSS in the Department of Consumer Affairs as Deputy Secretary of CSS on regular basis with effect from the forenoon of 1st July, 2006. Shri H. S. Malhi retired on superannuation on 30.11.2008.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 3rd March 2009

No. A-32014/1/2006-E. I.—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Department of Food & Public Distribution as Stenographer Grade 'A & B' (Merged) on regular basis w.e.f. 19.12.2008 (FN) for the Select List year, 2005 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-.

Smt. Suman Mahi

2. The above appointment is subject to the conditions laid down in the DOP&T's O. M. No. 5/12/2007-CS-II, dated the 5th November, 2008.

SHIV KUMAR GANDOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 25th February 2009

No. A-32012/1/2009-P. II (.)—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of the Central Secretariat Service (CSS) for the year 2007 and nomination to the Ministry of Environment & Forests vide DoPT's Order No. 4/9/2008-CS. I (D) dated 17th February, 2009, the President is pleased to appoint Shri Alok Agarwal (CSL No. 3776A) as Deputy Secretary in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Ministry of Environment and Forests w.e.f. the afternoon of 23.2.2009.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th March 2009

No. A-12025 8/05-CHS, III - On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Alok Kumar Hembram, M.B.B.S., Assistant Professor in the Specialty of Paediatrics, to the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 17th March 2009 and until further orders.

A. P. RAY, Under Secy.

No. A-12025 27/07-CHS, III - On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Archana Parit to the post of Assistant Professor in the Specialty of Paediatrics, to the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 17th March 2009 and until further orders.

A. P. RAY, Under Secy.

The 17th March 2009

No. A-12025 28/2007-CHS, III - On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shanti K. Ramesh, M.B.B.S., Assistant Professor in the Specialty of Paediatric Surgery to the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 19th March 2007 and until further orders.

A. P. RAY, Under Secy.

New Delhi, the 17th March 2009

No. A-38020 1/2005-CHS, VI - On attaining the age of superannuation, following Staff Surgeon (General) has retired from government service with effect from the afternoon the date mentioned against his name.

Sl. No.	Name	Date of Retirement	Remarks
1.	Dr. P. K. Ghosh	30.11.2008 (V.S.)	Retired
2.	Dr. Kaldeep Kaul-ik	31.01.2009 (V.S.)	Retired

PAWAN KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th February

No. A-22012 03/2008-CHS, III - On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. S. Vankatesh, a Specialist Grade-I of the Central Health

Specialists Sub-cadre of Central Health Service and presently posted as Addl. Project Director, National AIDS Control Organisation (NACO) to the Super Time Administrative Grade in the same sub-cadre, on promotion, and posted as Deputy Director General, NACO in the Pay Band-4 with a Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Department of AIDS Control in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 31st December, 2008.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 3rd March 2009

No. A-19013 1/2009-CHS, I - The President is pleased to appoint Shri Puneet Kausal IAS (SK : 1996) as Deputy Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare for a period of four years w.e.f. 22.2.2009 (P.N) or until further orders, whichever is earlier.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 3rd March 2009

No. A-38013/09/2008-CHS, I - On attaining the age of superannuation, Smt. Dayinder Kaur, an officer of the CSS and posted as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2009.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd February 2009

No. 38012/01/2009-CHS, I - Shri J. K. Bandhu, Under Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2009 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 9th March 2009

CORRECTION

No. A-19011/14/2006-CHS, I - In partial modification of this Department's Notification of even number dated 12.10.2006, the tenure of the appointment of Shri Musharraf Ali, Technical Officer in the Institute of Fisheries Education, Mumbai, in this Department, to the post of Assistant Commissioner (Fisheries) on deputation basis may be read as three (3) years instead of five (5) years.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 13th March 2009

No. A-23018/4/2007-Estt. II.—In pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 5/6/2004-CS. II, dated 6th February, 2009 and consequent on their being approved for promotion, the President is pleased to appoint the following officers as Principal Private Secretaries on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of combined cadre of Ministry of Rural Development and Ministry of Panchayati Raj with effect from 06.02.2009 (FN). They are included in the Select List of the years indicated against their names as per their seniority :—

Sl. No.	Name	Place of posting	Select List Year
1.	Sh. Subhash Chander	Secretary (RD)	2003
2.	Smt. Shobha Bhatia	M/o Panchayati Raj	2004
3.	Sh. R. K. Sappal	M/o Panchayati Raj	2004

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 16th March 2009

No. 3-7/2004-NI. II/DD.IV—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation, the President is pleased to re-appoint Shri R. N. Yadav, Deputy General Manager in the Small Industries Development Bank of India, Faridabad, as an Ex-Officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation with effect from 26th February, 2009 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

K. N. MISHRA, Under Secy.

No. 3-7/2004-NI. II/DD.IV—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Dr. Arbind Prasad, IAS (BH : 80), Joint Secretary (Disability Division) in the Ministry of Social Justice & Empowerment, as an Ex-Officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation with effect from 26th February, 2009 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Ms. Purnima Singh, Joint Secretary.

K. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 6th March 2009

No. 3(3)/2009-P. I—The President is pleased to appoint Smt. R. K. Juneja, Deputy Director on in-situ/personal on

promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Information Technology in the revised structure of pay of Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 04.03.2009 (forenoon).

2. She will be on probation for a period of two years with effect from the date of her appointment.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110001, the 17th February 2009

No. A-32013/01/2007-Admn. I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the following Asstt. DGs officiating as ad hoc Dy. Director General/Regional Director are hereby promoted as Dy. Director General/Regional Director in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- (PR) PB-3 Rs. 15,600—39,100/- (Revised) on regular basis in a temporary capacity w.e.f. 04.02.2009 in the Government of India, Ministry of Tourism :—

1. Sh. M. N. Javed
2. Smt. Roma Singh Nongpiur
3. Sh. D. K. Baruah

B. N. PRASAD, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th February 2009

No. A-35018/3/2007-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Devesh Chaturvedi, IAS (UP : 89) presently working as Director in the Ministry of Tourism, as Additional Director General (Tourism) in the Ministry of Tourism in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 19.02.2009 (FN) for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. upto 27.06.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier, vice Shri Sanjay Kothari, IAS (HY : 78)

UMESH KUMAR KALARA, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th March 2009

No. ERB-I/2009/2/1—The President is pleased to appoint Shri V. K. Dutt, HAG/IRSEE, Adviser (Electrical)/Railway Board as Additional Member (Electrical)/Railway Board, on promotion to the Grade of Rs. 75,500—80,000/- with effect from the afternoon of 09.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy. (Railway Board)

No. ERB-I/2009/2/20—The President is pleased to appoint, Shri A. K. Goyal, IRTS, General Manager, East

Coast Railway as Member (Staff) Railway Board, as ex-officio Secretary to the Government of India, Grade of Rs. 80,000 - (fixed) with effect from 26.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy. (Rt. War. & Land)

No. ERB-I 2005-14-6 - The following Personnel Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) have been promoted as Private Secretaries of RBSSS (Pay Band of Rs. 9,300 - 34,800 - Grade Pay of Rs. 4,500) on regular basis with effect from the date indicated against each :

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri Ms.	
1.	Ramesh Kumar	26.02.2009 (N)
2.	Ajeet Kumar	26.02.2009 (N)
3.	Anju Kapur	26.02.2009 (N)

K. B. L. MITTAL, Secy. (Rt. War. & Land)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 7th February 2009

No. A-12026-2 2009-F. 1 (B) - Consequent on revision of their names in the Select List of 2004 of Private Secretaries Grade of CSSS (designated as Principal Private Secretary) vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,

Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/6-2004-CS.II dated 6.2.2009, the President is pleased to appoint Smt. R. Vijaya Kumar and Smt. Ravi Kishan, Private Secretaries of CSSS, presently working as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the same Ministry in PB-3 (Rs. 15,600 - 39,100 - Grade Pay of Rs. 6,000) with effect from 24.2.2009 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 12th March 2009

No. 25/5 2008-R & R - In terms of Section 76(6) read with Section 89(1) the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri V. S. Verma as Member of the Central Electricity Regulatory Commission for a period of five years from the forenoon of the 23rd February, 2009 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

MALAY SHRIVASTAVA, Dir.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th February 2009

No. A-22017-1 2007-Admn. 1 - The President is pleased to appoint Shri Devendra Singh J. Tele. S. (95) as Deputy Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600 - 39,100 - plus Grade Pay of Rs. 7,000 - with effect from 16.02.2009 (FN) in the Ministry of Urban Development for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. G. MOHANTA, Under Secy. (Admn.)

(12th March 2009)

No. A-22017-1 2007-Admn. 1 (Pt. 1) - Consequent upon their inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the years 2003, 2004, 2005 & 2006 by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 4-1/2007-CS, I (D) dated 26.12.2008, OM No. 4-4/2008-CS, I (D) dated 29.01.2009 and OM No. 4-9/2008-CS, I (D) dated 30.01.2009 respectively, the President is pleased to appoint the following officers of the CSS in this Ministry as Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from the dates (as indicated against each) mentioned :

Sl. No.	Name	CSS No.	Year	Deemed date of appointment as Regular DS	Place of Posting
	S/Shri Ms.				
1.	P. K. Kailasa Babu	3383	03	01.07.2003	Dte. of Printing
2.	G. Ganesan	3648	04	01.07.2004	Dte. of Printing
3.	Moti Lal	3250	05	01.07.2005	Ministry
4.	R. R. Sharma	3711	05	01.07.2005	Ministry
5.	Ramesh Kumar	3788	05	01.07.2005	Ministry
6.	Sarender Kumar	3961	06	01.07.2006	Ministry
7.	Diwan Chand	4011	06	01.07.2006	CPWD

K. G. MOHANTA, Under Secy. (Admn.)

प्रकाशक : प्रिन्टिंग प्रिन्स, कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता

प्रकाशक : प्रिन्टिंग प्रिन्स, कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता

PRINTED BY : THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS, KAROL BAGH, NEW DELHI

PUBLISHED BY : THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS, KAROL BAGH, NEW DELHI, 2009